

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]	दिल्ली, बुधवार, जनवरी 23, 2019/माघ 3, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 722
No. 20]	DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23, 2019/MAGHA 3, 1940	[N.C.T.D. No. 722

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 22 जनवरी, 2019

एफ. सं. 61/(869)/सीडब्ल्यूसी/(सेलेक्शन)/एण्ड जेजेबी/डीडी(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/38285—
315.—किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 2 के खण्ड (59) की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, किशोर न्याय बोर्ड के साथ निम्नलिखित सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करती है, जिसके अनुसार यह बोर्ड उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों और कर्तव्यों का कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्य करेगा।

क्र.सं.	बोर्ड का नाम और पता	सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता का नाम
1.	किशोर न्याय बोर्ड-VI विश्वास नगर, शाहदरा, नई दिल्ली अधिसूचना संख्या 61 (3 JJBs की स्थापना)/ DD (SCPS)/DWCD/2017-18/6728-6760 दिनांक 21.05.2018	सुश्री केसर परवीन, ब्लॉक एफ 17/1/502, चौथी मंजिल, जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 मोबाइल नंबर : 9654967986

रिक्त पद के लिए उपरोक्त सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यकाल, किशोर न्याय बोर्ड-VI, विश्वास नगर की अधिसूचना की तारीख से शेष अवधि के लिए अर्थात् 20.05.2021 तक होगा।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रश्मि कृष्णन, सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd January, 2019

F. No. 61/(869)/CWC (Sele.) & JJB/DD(CPU)/DWCD/38285-315.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 read with clause 59 of Section 2 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby appoints the following Member Social Worker for the below mentioned Juvenile Justice Board for exercise the powers and discharging the duties conferred or imposed on such Board, in relation to the children in conflict with law under the said Act for the National Capital Territory of Delhi.

Name & Address of the Board	Name of Member Social Worker
Juvenile Justice Board-VI, Vishwas Nagar, Shahdra, New Delhi <i>Vide Notification No. 61 (Setting of 3 JJBs)/DD(SCPS)/DWCD/2017-18/6728-6760 Dated 21.05.2018</i>	Ms. Kesar Parveen, Block F. 17/1/502, 4th Floor, Joga Bai Extention Jamia Nagar, New Delhi-110025 Mobile Number: 9654967986

The tenure of the aforesaid Member Social Worker against the vacant post, shall be for the remaining period i.e. from the date of notification of the Juvenile Justice Board-VI, Vishwas Nagar till 20.05.2021.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RASHMI KRISHNAN, Secy.